



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1940 (श10)
(सं० पटना 819) पटना, शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

सं० 3ए-2-वे०पु०-17/2017-6570/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

31 अगस्त 2018

विषय :- समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय के अंतर्गत सांख्यिकी सहायक पद के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-7 की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24.05.2017 एवं संकल्प संख्या-8145, दिनांक 13.10.2017 के द्वारा पर्यवेक्षकीय कोटि के पदों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-7 की स्वीकृति प्रदान की गई है। सांख्यिकी सहायक का पद पर्यवेक्षकीय कोटि का पद है। योजना एवं विकास विभाग, उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन स्तर-7 स्वीकृत है, जबकि समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय अंतर्गत सांख्यिकी सहायक के लिए वेतन स्तर-6 स्वीकृत है।

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी सहायक का पद स्नातक स्तरीय तथा पर्यवेक्षकीय कोटि का है। इन सांख्यिकी सहायकों का कार्य एवं दायित्व अन्य विभागों में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों के समान है।

3. राज्य वेतन आयोग के समक्ष आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी सहायक के सन्दर्भ में पदीय प्रास्थिति की सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इस पद के लिए अन्य पर्यवेक्षकीय कोटि के पदों के समान वेतन स्तर-7 की अनुमान्यता के संबंध में तत्समय विचार नहीं किया जा सका।

4. सम्प्रति, आई०सी०डी०एस० निदेशालय के सांख्यिकी सहायक की पदीय प्रास्थिति एवं कार्य-दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए इस पद के लिए अन्य पर्यवेक्षकीय कोटि के पदों के समान वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24.05.2017 की अनुसूची-III, अध्याय-5(5.1) के क्रमांक-611 में अंकित वेतन स्तर-6 को विलोपित करते हुए समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय अंतर्गत सांख्यिकी सहायक पद के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-7 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संशोधित वेतन स्तर में वेतन पुनरीक्षण संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24.05.2017 के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 819-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>